

भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों में परिवीक्षाधीन अधिकारियों की भर्ती
RECRUITMENT OF PROBATIONARY OFFICERS IN ASSOCIATE BANKS OF
STATE BANK OF INDIA

समूह चर्चा एवं साक्षात्कार का दिनांक :

DATE OF GROUP DISCUSSION AND INTERVIEW : _____

केन्द्र/ CENTRE : _____

पैनल नं./ PANEL NO : _____

रोल नं./ ROLL NO : _____

नाम/ NAME : _____

वर्ग/ CATEGORY : _____

कार्यालय के उपयोग हेतु
FOR OFFICE USE ONLY

1) साक्षात्कार में सम्मिलित होने का दिनांक :

Date of appearing in interview : _____

2) योग्यता / प्रमाणपत्रों का सत्यापन करने वाले अधिकारी का नाम : श्री./श्रीमती/ कु. :

Eligibility/ Certificates verified by : Shri/Smt/ Kum. : _____

3) कमियां तथा प्राप्त विसंगतियां :

Deficiencies and Discrepancies found : _____

प्रमाणपत्रों का सत्यापन करने वाले अधिकारी का पदनाम एवं हस्ताक्षर

Signature & Designation of Documents Verifying Official

पदनाम

Designation _____

हस्ताक्षर

Signature _____



भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA

केन्द्रीय भर्ती एवं पदोन्नति विभाग
CENTRAL RECRUITMENT & PROMOTION DEPARTMENT

प्रत्याशी का आत्मकथ्य एवं सत्यापन फार्म
CANDIDATE'S BIO-DATA-CUM-ATTESTATION FORM
(कृपया सावधानीपूर्वक पढ़ने के पश्चात फार्म अपनी हस्तलिपि में भरे)
(Please fill in the form in your own handwriting after reading carefully)

यहाँ पासपोर्ट आकार की वह फोटो चिपकाये जिस की प्रति आपने परीक्षा के समय काल लैटर एवं बायोडेटा पर चिपकायी थी तथा उस पर दिनांक सहित पूर्ण हस्ताक्षर करें
Paste a copy of passport size photograph which was pasted on call letter and Bio-data at the time of examination and sign across it in full with date

समूह चर्चा एवं साक्षात्कार के लिए केन्द्र :

Centre for Group Discussion and Interview : _____

दिनांक / Date : _____

अनुक्रमांक / Roll No. : _____

पद का नाम : भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों में परिवीक्षाधीन अधिकारी

Name of Post : Probationary Officer in Associate Banks of SBI

साक्षात्कार एवं समूह चर्चा हेतु भाषा का विकल्प : हिन्दी/ अंग्रेजी

Choice of Language for Group Discussion and Interview : Hindi/ English

1. (क) डिग्री प्रमाणपत्र के अनुसार सुस्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम :

(a) Name in full, in block letters as per degree certificate :

श्री/ श्रीमती / कु. Shri/Smt./Kum. : _____

(ख) वैवाहिक स्थिति : विवाहित / अविवाहित

(b) Marital Status : Married / Unmarried

2. (क) जन्म तिथि

(a) Date of Birth

--	--

दिनांक /Date

--	--

महीना / Month

--	--	--	--

वर्ष / Year

दस्तावेज उदाहरणार्थ हाईस्कूल प्रमाणपत्र, पासपोर्ट इत्यादी के अनुसार (कृपया सलग्न करें)

As per High School Certificate, Passport, Others (please enclose) :

(ख) जन्म का स्थान :

जिला :

राज्य :

(b) Place of Birth :

District :

State :

(ग) जिला तथा राज्य जहाँ के आप निवासी हैं.

(c) District and State to which you belong : _____

3. (क) राष्ट्रियता :

(a) Nationality : _____

(क) धर्म :

(b) Religion : _____

4. (क) पिता /पति का नाम एवं व्यवसाय /पदनाम :

(a) Father's/Husband's name and occupation/profession/designation : _____

(ख) माँ का नाम एवं व्यवसाय :

(b) Mother's name and occupation : _____

5. (क) राष्ट्रियता पिता माता पति/पत्नी

(a) Nationality : _____ Father : _____ Mother : _____ Husband/ Wife _____

(ख) पति/पत्नी का जन्म स्थान

जिला

राज्य

(a) Place of Birth of Husband/ Wife : _____ District : _____ State : _____

6. (क) श्रेणी वर्ग (यथोचित आयत में सही का चिन्ह लगाएँ)

(a) Category (Tick the appropriate box)

--

SC

--

ST

--

GEN

--

OBC

(ख) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार जाति/जनजाति /समुदाय का नाम दें

(b) SC / ST / OBC candidates state the name of CASTE / TRIBE / COMMUNITY

--

(ग) यदि आप विकलांग हैं तो कृपया यथोचित आयत में सही का चिन्ह लगाएँ जैसे आस्थि विकलांग या दृष्टि विकलांग

आस्थि विक.

दृष्टि विक.

(c) If you are Physically Challenged, please tick appropriate box. i.e. OH or VH

--

OH

--

VH

(घ) यदि आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो कृपया अपने विकलांगता का विवरण दें.

(d) If you are a Physically Challenged person, please give details of your handicap.

7. (क) यदि आप प्रत्यावर्तित / प्रवासी / विस्थापित व्यक्ति हों तो उसका विवरण दें.
 (a) If you are a repatriate / migrant / displaced person, give particulars : _____
- (ख) यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो कृपया कार्यमुक्ति / सेवानिवृत्ति की तिथि का उल्लेख करें.
 (b) If Ex-serviceman, please give date of discharge / retirement.

8. (क) मातृ भाषा
 (a) Mother Tongue :
 (ख) अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं का ज्ञान
 (b) Knowledge of languages other than English

भाषा Language	बोल सकते हैं Speak	पढ़ सकते हैं Read	लिख सकते हैं Write	उत्तीर्ण परीक्षाएँ, यदि कोई हों तो Examination passed, if any
1.				
2.				
3.				

9. शैक्षणिक योग्यताओं का ब्योरा Details of Educational Qualifications : कुल अंक एवं प्राप्तांक कालम में सभी विषयों जैसे ऐच्छिक, पास कोर्स या आनर्स कोर्स के अंक जोड़कर दर्शाये (The aggregate Marks of all subject whether optional, pass course or honours course will be shown in total marks & marks obtained coloum)
 (संबद्ध प्रमाणपत्रों तथा अंक पत्रों की प्रतिलिपियां संलग्न कीजिए) (Please enclose copies of relevant certificates & Mark-Sheets).

शैक्षणिक योग्यता Educational Qualifications	विश्वविद्यालय/ संस्थान / बोर्ड University/ Institute / Board	पास होने का महीना एवं वर्ष Month & Year of Passing	कुल अंक Total Marks	प्राप्तांक Marks Obtained	पढ़े गए विषय Subject Studied
12 वीं कक्षा या डिप्लोमा की अंक सूची के अनुसार As per Mark Sheet of 12th Std. or Diploma					
12 वीं कक्षा या डिप्लोमा का प्रमाणपत्र Certificate of 12th Std. or Diploma					
ग्रेजुएशन अंक सूची के अनुसार (कृपया उल्लेख करें) बी.ए./बी.एस.सी./बी.टैक/बी.कॉम/अन्य As per Graduation Mark Sheet (Please specify) B.A./ B.Sc./ B.Tech. / B.Com. or Others					
पहला सत्र First Semester					
दूसरा सत्र या पहला वर्ष Second Semester or First Year					
तीसरा सत्र Third Semester					
चौथा सत्र या दूसरा वर्ष Fourth Semester or Second Year					
पाँचवाँ सत्र Fifth Semester					
छठा सत्र या तीसरा वर्ष Sixth Semester or Third Year					
सातवाँ सत्र Seventh Semester					
आठवाँ सत्र या चौथा वर्ष Eight Semester or Fourth Year					
सकल अंक Aggregate Marks					
ग्रेजुएशन डिग्री (कृपया उल्लेख करें) Graduation Degree (Please specify) B.A./B.Sc./B.Tech./ B.Com. Others					
व्यावसायिक शिक्षा सीए/आयसीडब्ल्यूए/ सीएफए/सीएस Professional Qualifications CA/ ICWA/ CFA/ CS					
Any other Additional Qualifications (Please specify)					

10. प्राप्त पुरस्कारों/पदकों/छात्रवृत्तियों का विवरण
 Particulars of prizes/ medals/ scholarships obtained : _____

11. (क) खेल तथा पाठ्यक्रमेतर क्रियाकलापों का विवरण, जिसमें आपने भाग लिया हो, प्राप्त गौरव तथा विशिष्ट योग्यता
 (a) Particulars of sports and other extra-curricular activities in which you have participated, Credits & Distinctions obtained :
 (ख) अभिरुचियाँ एवं अन्य रुचियाँ
 (b) Hobbies & other interests :

12. बैंकिंग में विशेष शैक्षणिक योग्यता/प्रशिक्षण का विवरण
Particulars of any special qualification/training in Banking

13. (क) वर्तमान तथा पहले नियोजन का विवरण
(a) Particulars of present and previous employment :

नियोजक का नाम एवं पता Name & Address of employer	अवधि/ Period		पद तथा काम का विवरण Position and nature of duties	नियुक्ति का स्थान Place of Posting	कुल वेतन Total Emoluments		छोड़ने का कारण Reasons for leaving
	से From	तक To			शुरु में/ Starting	अंत में प्राप्त/ Last Drawn	

(ख) वर्तमान नियोजक की स्थिति (सरकारी)/ अर्द्ध सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र / निजी क्षेत्र)

(b) Status of present employer (Govt./Semi-Govt./Pub./Pvt. Sector) _____

14. भारतीय स्टेट बैंक तथा उसके सहयोगी बैंकों में भर्ती के लिए किए गए पूर्व के सभी प्रयासों का विवरण
Particulars of all your previous attempts for recruitment in State Bank of India and its Associate Banks :

आवेदित पद Post applied for	परीक्षा केन्द्र Centre of exam	परीक्षा तिथि Date of exam	परिणाम Results

15. पिछले तीन वर्षों में (चातू वर्ष सहित) नियुक्ति के लिए अन्य स्थानों पर किये गए आवेदनों का विवरण
Particulars of your application for employment elsewhere during the last 3 years (including current year)

आवेदन की तिथि Date of application	संस्था का नाम Name of the organisation	आवेदित पद Post applied for	परिणाम Results

यदि आवश्यकता हो तो अतिरिक्त पन्ने का उपयोग करें. कृपया सभी विवरण बतायें. Use extra sheet if required. Please disclose all details.

16. पत्र व्यवहार के लिए पूर्ण वर्तमान पता :
Present address in full for correspondence

पिन कोड
PINCODE

Tel No. With STD Code :

Mobile No :

E-mail address :

17. पूर्ण स्थायी पता :
Permanent address in full

पिन कोड
PINCODE

Tel No. With STD Code :

Mobile No :

E-mail address :

18. उन स्थानों का विवरण जहाँ आप पिछले पाँच वर्षों के दौरान एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हों
Particulars of places where you have resided for more than 1 year during the last 5 years:

से From	तक To	निवास स्थान का पूरा पता Residential address in full	3 नम्बर के कालम में दिए गए स्थान का जिला मुख्यालय District Head Quarter of the place mentioned in the column No. 3
(1)	(2)	(3)	(4)

19. यदि किसी न्यायालय ने आपके विरुद्ध किसी अपराध के लिए अभियोजन/ हिरासत/ दण्ड/ दोषसिद्धि का निर्णय दिया हो तो उसका विवरण.
Particulars of any prosecution/detention/fine/conviction/sentence against you awarded by any court of law for any offence.

20. यदि किसी न्यायालय ने आपके विरुद्ध कोई मामला (बैंक/ अन्य वित्तीय संस्थाओं की ऋण अदायगी नहीं करने से संबंधित मामले सहित) विचाराधीन हो तो उसका विवरण.

Particulars of cases pending against you in any court of law including case (s) for non-payment of any loan from Banks/ Financial Institutions.

21. यदि किसी सेवा आयोग, परीक्षण संस्था ने अपनी चुनाव परीक्षा में अयोग्य घोषित किया हो/रोक लगा दी हो, तो उसका विवरण.

Particulars of disqualification/ debarment by any Service Commission, examining body at their selection/examination:

22. आपके वर्तमान अथवा पहले नियोजक (कों) द्वारा आपके विरुद्ध प्रारंभ किए गए / विचाराधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही का विवरण, यदि आपको किसी पदोन्नति परीक्षा में बैठने पर रोक लगाई गयी हो तो उसका भी विवरण दें.

Particulars of any case (s) of disciplinary action instituted/ pending against you by your present or previous employer (s). Please also state whether you were debarred from appearing in any promotional examination.

23. संलग्न चरित्र प्रमाणपत्रों का विवरण
Particulars of character certificates enclosed :

1. Last Educational Institute
2. Past /Present Employer
3. Gazetted Officer of State/ Central Govt. MLA, MLC, MP, Branch Head of State Bank of India or a Nationalised Bank

24. दो प्रतिष्ठित परिचायकों के नाम, व्यवसाय एवं पते :

Names, occupations and addresses of two respectable referees :

क्रम संख्या Sr. No.	नाम Name	पता Address	टेली फोन नं. Tel. No.
1.			
2.			

25. अन्य विवरण जो बैंक के लिए उपयोगी हो सकते हैं।

Additional particulars, if any, which may be of use to the Bank : _____

26. क्या आपके कोई संबंधी भारतीय स्टेट बैंक/ भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों में कार्यरत हैं ?

Do you have any relative employed in SBI / Associate Banks of SBI ? :

हाँ / Yes

नहीं / No

यदि हाँ, / If yes,

नाम / Name :

पद / Position :

संबंध / Relationship :

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी पूरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य, सही व पूर्ण है। मैं ऐसी किसी भी बात से अवगत नहीं हूँ जो मुझे बैंक की नौकरी के लिए उपयुक्त होने में बाधक सिद्ध हो सकती है। मैं भारत में किसी भी स्थान पर अथवा विदेश में सेवा के लिए अपनी सहमति देता/देती हूँ, मैं यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि मुझे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत अथवा विधि के अनुसार दण्डनीय किसी अपराध के मामले में कभी भी दण्डित नहीं किया गया है।

यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया विवरण गलत या असत्य पाया जाता है और / या फार्म प्रस्तुत करते समय वास्तविक तथ्यों का छिपाया जाना बाद की तिथि में पता चलता है तो बैंक को मेरी नियुक्ति, नियुक्ति के प्रस्ताव सहित, जैसा भी मामला हो, रद्द करने का अधिकार होगा। उपरोक्त विवरण भारतीय स्टेट बैंक के विज्ञापन क्रमांक सीआरपीडी / पीओ / एबी / 2011-12/02 दिनांक : 01.06.2011 के प्रत्युत्तर में मेरे आनलाइन आवेदन के संबंध में प्रस्तुत किये गये हैं।

I certify that the particulars furnished above are true, correct and complete to the best of my knowledge and belief. I am not aware of any circumstance which might impair my fitness for employment in the Bank. **I am willing to serve anywhere in India and in any other country.** Further, I declare that I have never been convicted for any dowry offence under the Dowry Prohibition Act, 1961, or any criminal offence under any other law.

In case the particulars submitted by me are found to be false or not true and / or suppression of material facts by me while submitting the form is revealed at a latter date, the Bank shall have the right to cancel the appointment including the offer for appointment, as the case may be. The above details are submitted in reference to State Bank of India advertisement No. CRPD / PO / AB / 2011 - 12/02 Dated 01.06.2011 & my online application thereto.

स्थान Place :

दिनांक Date :

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

Signature of candidate :

परिचय प्रमाण पत्र
IDENTITY CERTIFICATE

किसी भी प्रदेश/केन्द्र सरकार के राजपत्रित अधिकारी, सांसद, एमएलए, एम.एल.सी या भारतीय स्टेट बैंक या किसी राष्ट्रीय कृत बैंक के शाखा मुख्य द्वारा जारी किया जाना चाहियें.

To be issued by a Gazetted officer of state/ Central Govt. MLA, MLC, MP Branch Head of State Bank of India or a Nationalised Bank

प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री/ श्रीमती/कुमारी _____ आत्मज/पत्नी/ आत्मजा

Certified that I have known Shri /Smt./Kum. _____ Son/ Wife/ Daughter of

श्री _____ को पिछले _____ वर्षों _____ महीनों से जानता/ जानती हूँ तथा मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार उनके द्वारा दिया गया उपर्युक्त विवरण सही है.

Shri _____ for the past _____ years _____ month/s and that to the best of my knowledge and belief the particulars furnished above by him/her are correct.

स्थान Place :

हस्ताक्षर Signature

दिनांक Date :

पदनाम Designation

पता Address

मोहर
SEAL

संलग्नकों की सूची List of Enclosures

यथोचित आयत में सही का चिन्ह लगाएँ

Tick the appropriate box

	संलग्न किया Enclosed	संलग्न नहीं किया Not enclosed
1) आयु का साक्ष्य प्रमाणपत्र का नाम (हाईस्कूल प्रमाणपत्र, पासपोर्ट इत्यादि)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1) Proof of Age - Name of Document (High School Certificate, Passport, Others)		
2) 12 वी / डिप्लोमा अंक तालिका एवं प्रमाणपत्र	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) XII Std./Diploma Mark Sheet esnd Certificate		
3) स्नातक अंक-तालिका (कृपया स्पष्ट रूप से उल्लेख करें जैसे बी.ए./बी.एससी इत्यादि)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) Graduation Mark-sheet (Please specify B.A./B.Sc.etc.)		
ग्रेजुएशन अंक सूची (कृपया उल्लेख करें बी.ए./बी.एस.सी./बी.टैक/बी.कॉम/अन्य)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Graduation Mark Sheet (Please specify B.A./B.Sc./B.Tech/ B.Com. or Others)		
पहला सत्र	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
First Semester		
दूसरा सत्र या पहला वर्ष	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Second Semester or First Year		
तीसरा सत्र	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Third Semester		
चौथा सत्र या दूसरा वर्ष	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fourth Semester or Second Year		
पाँचवा सत्र	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fifth Semester		
छठा सत्र या तीसरा वर्ष	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sixth Semester or Third Year		
सातवाँ सत्र	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seventh Semester		
आठवाँ सत्र या चौथा वर्ष	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eight Semester or Fourth Year		
सकल अंक	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aggregate Marks		
4) स्नातक डिग्री (कृपया उल्लेख करें जैसे बी.ए./बी.एससी/बी.टैक/बी.कॉम/अन्य)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) Graduation Degree (Please specify B.A./B.Sc./B.Tech/ B.Com. or Others)		
5) व्यावसायिक शिक्षा सीए/ आईसीडब्ल्यूए/ सीएफए/ सीएस की पास प्रमाणपत्र	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) Professional Qualification CA/ ICWA/ CFA/ CS Pass Certificate		

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 6) दो/तीन चरित्र प्रमाणपत्र जैसा लागू हो | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6) Two/Three Character Certificates As applicable | | |
| 7) कम्प्यूटर दक्षता का प्रमाणपत्र (यदि कोई हो) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7) Certificate of Computer Proficiency (if any) | | |
| 8) वर्तमान नियोजक से अनापत्ति प्रमाणपत्र | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8) No Objection Certificate from Present Employer | | |
| 9) अनुभव प्रमाणपत्र | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9) Experience Certificate | | |
| 10) विमुक्ति प्रमाणपत्र | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10) Discharge Certificate | | |
| 11) बार काउंसिल / मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11) Registration with Bar Council / Medical Council | | |
| 12) मेडीकल श्रेणी से संबंधित प्रमाणपत्र | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12) Certificate regarding Medical Category | | |
| 13) अन्य योग्यताएँ (कृपया स्पष्ट रूप से उल्लेख करें) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13) Other qualification (Please specify) | | |
| 14) पाठ्यक्रम संबंधी अन्य गतिविधियों से संबंधित प्रमाणपत्र (कृपया स्पष्ट रूप से उल्लेख करें) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14) Certificate regarding extra curricular activity (Please specify) | | |

दिनांक :

Date :

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

Signature of candidate

**DECLARATION TO BE SUBMITTED BY THE OTHER BACKWARD CLASSES
CANDIDATES SEEKING RESERVATION AS OBC**

I _____
Son/daughter of Shri _____
Resident of village/ town/city _____ District _____
State _____ . Hereby declare that I
belong to the _____ Community which
is recognised as a backward class by the Government of India for the purpose of reservation
in services as per orders contained in Department of Personnel and Training Office
Memorandum No. 36012/22/93-Estt.(SCT) dated 08.09.1993. It is also declared that as
on 25.06.2011, I do not belong to persons / sections (Creamy Layer) mentioned in column
3 of the Schedule to the above referred Office Memorandum dated 08.09.1993.

Place :

Dated

(Signature of the candidate)

**अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में आरक्षण की मांग करनेवाले अन्य पिछड़े वर्गों के
उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत की जानेवाली घोषणा**

मैं _____
पुत्र/पुत्री श्री _____
निवासी _____
गांव/कस्बा/शहर _____ जिला _____
राज्य _____ एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि
मैं _____ जाति से संबंधित हूँ जिसे भारत सरकार
द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 36012/22/93-ईएसटीटी (एस सी टी) दिनांक 08.09.1993
में समाविष्ट आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजन हेतु एक पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है. यह
भी घोषणा की जाती है कि मैं दिनांक 25.06.2011 को उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 08.09.1993
की अनुसूची के स्तंभ 3 में उल्लिखित व्यक्तियों / खण्डोह (क्रिमी लेयर) के दायरे में नहीं हूँ.

स्थान :

दिनांक :

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)